

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जनवरी 2019 माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

- i. कर्मचारी चयन आयोग ने नए प्रतीक चिह्न का निर्धारण किया है जिसे आयोग द्वारा दिनांक 01.01.2019 से अपनाया गया है।
- ii. कर्मचारी चयन आयोग ने जनवरी के महीने में निम्नलिखित दो परीक्षाएं आयोजित की हैं:-
 - क) आयोग द्वारा 49,651 उम्मीदवारों के लिए दिनांक 13.01.2019 को अधीनस्थ कार्यालय में संयुक्त कनिष्ठ हिंदी अनुवादक/हिंदी प्राध्यापक परीक्षा, 2018 (प्रश्न पत्र-I) आयोजित की गई थी।
 - ख) 43,71,429 उम्मीदवारों के लिए दिनांक 16-18 जनवरी, 2019 को चयन पदों के लिए चरण-VI परीक्षा, 2018 आयोजित की गई।
- iii. लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु खोजबीन समिति की पहली बैठक दिनांक 29.01.2019 को आयोजित की गई थी।
- iv. जनवरी, 2019 माह के दौरान सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम) में 27 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसमें 02 सीएसएस-सीटीपी (स्तर-घ और स्तर-ड.) और 01 सीएसएसएस-सीटीपी (स्तर-II) कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या 755 थी।
- v. लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने 28 (अट्वाइस) पदों के लिए विज्ञापन जारी किया [सीएमडी/एमडी के 09 (नौ) पद और निदेशक के 19 (उन्नीस) पद] और 14 (चौदह) चयन बैठकें आयोजित की गई [सीएमडी/एमडी के लिए 03 (तीन) और निदेशक के 11 (ग्यारह)]।
- vi. निजी सचिवों की तदर्थ पदोन्नतियों पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के 417 निजी सचिवों की तैनाती के आदेश जारी किए गए।
- vii. चक्रानुक्रम स्थानांतरण नीति के अंतर्गत 37 उप सचिव/निदेशक स्थानांतरित किए गए।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित अनुदेश/दिशानिर्देश/स्पष्टीकरण जारी किए गए:-

क) नकद प्रबंधन भत्ता और खजाना भत्ता को एक साथ मिलाने के संबंध में दिनांक 18.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/6/2017-स्था (वेतन-II) के माध्यम से अनुदेश जारी किए गए थे।

ख) हरियाणा राज्य विधान सभा (36-जीद) के उप-चुनाव के दौरान दिनांक 18.01.2019 के का.ज्ञा.सं. 12/3/2016-जेसीए-2 के माध्यम से और राजस्थान राज्य विधान सभा (67-रामगढ़) के आम-चुनाव के दौरान दिनांक 24.01.2019 के का.ज्ञा.सं. 12/3/2016-जेसीए-2 के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को संदेय अवकाश प्रदान किया गया था।